

CLASS-2

SUBJECT-2ND LANGUAGE HINDI

CHAPTER- 8

बादल आया

WORKSHEET

सार:-

● बादल आया कविता में कवि कहते हैं कि गर्मी के बाद जब वर्षा का मौसम आता है तब आसमान पर बादल छाते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। कोयल कूकने लगती है मोर नाचने लगते हैं।

□ कवि कहते हैं बादल हवा के साथ झूमते-गाते आता है और रिमझिम- रिमझिम जल बरसाता है।

□ कवि कहते हैं कि बादल के आते ही संसार के सभी प्राणियों की प्यास बुझ जाती है और वर्षा की बूँदें धरती पर पड़ते ही धरती माँ चैन की अँगड़ाई लेती है। वर्षा के आते ही पेड़ों में जान आ जाती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है।

□ वर्षा के आते ही सारे तालाब भर जाते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं और वर्षा के पानी में कागज की नाव चलाने लगते हैं। बच्चे अपनी माँ से विनती करते हैं कि उनकी माताएँ उन्हें वर्षा के पानी में भीगने से ना रोके।

इस प्रकार कवि कहते हैं कि वर्षा का मौसम आते ही हम मनुष्यों के साथ-साथ पेड़-पौधे, जीव-जंतु सबके जीवन में हरियाली छा जाती है।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

- (a) तरूणाई-
- (b) मैया-
- (c) नैया-
- (d) ताल-तलैया
- (e) जग-जीवन-

Q2. एक शब्द में उत्तर दें:-

- (a) इस कविता में कवि किसके आने की बात कर रहा है?

- (b) बादल क्या बरसाता है?
- (c) बादल कैसे आता है?
- (d) बारिश होने पर क्या भर जाता है?
- (e) बादल के आने पर कौन अँगड़ाई लेता है?

Q3. सही मिलान करें:-

<u>A</u>	<u>B</u>
(a) बादल	तलैया
(b) ताल	काला
(c) तरुणाई	झूमकर
(d) हवा	हरियाली
(e) जग-जीवन	प्यास

Q4. बादल आया कविता की प्रथम 8 पंक्तियाँ याद करके लिखिए।

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

PAGE NO. 40

Q4. सही मिलान करें:-

PAGE NO.40

भाषा-मंथन

Q1. सबसे अलग शब्द पर □ लगाएँ:-

Q2. चित्रों का एक-एक नाम और लिखें:-